

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24—जुलाई 30, 2010 (श्रावण 2, 1932)  
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24—JULY 30, 2010 (SRAVANA 2, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 1207	प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 619	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1189	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1997
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 7049
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... *	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 479
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1207	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	619	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1189	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1997
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	7049
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	479
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2010

सं. 101-प्रेज/2010--भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-I में शनिवार, दिनांक 10 फरवरी, 1996 को प्रकाशित इस सचिवालय की दिनांक 26.01.1996 की अधिसूचना सं. 2-प्रेज/96 के तहत श्री आर. के. शर्मा, तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, रोहतक रेंज, हरियाणा को दिए गए सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है और पुलिस पदक को शासित करने वाले नियमों के नियम 8 के तहत उस पदक को जब्त किया जाता है।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 102-प्रेज/2010--मेजर सुखदेव सिंह नागियाल (आईसी-60492), सेना वायु रक्षा/34 असम राइफल का नाम जो असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किए गए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' की सूची (क्रम संख्या 11), जो कि इस सचिवालय द्वारा 15.08.2008 की अधिसूचना संख्या 100-प्रेज/2008 भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में दिनांक 08 नवम्बर 2008 को प्रकाशित की गई थी, में से हटाया जाता है।

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

शुद्धि-पत्र

सं. 103-प्रेज/2010--भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-I में 08 नवम्बर, 2008 को प्रकाशित 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' के पुरस्कार के सम्बन्ध में इस सचिवालय की दिनांक 15 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 99-प्रेज/2008 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के स्थान पर

राष्ट्रपति कैप्टन कुलदीप सिंह (आई सी-63517), से.मे., डोगरा रेजिमेंट/62 रा.रा. को असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

पढ़ा जाए

राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिकों को उनके असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. मेजर सुखदेव सिंह नागियाल (आईसी-60492) से.मे., सेना वायु रक्षा/34 असम राइफल
2. कैप्टन कुलदीप सिंह (आई सी-63517), से.मे., डोगरा रेजिमेंट/62 रा.रा.

बरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सं. 104-प्रेज/2010—इस सचिवालय की दिनांक 12 जून, 2009 की अधिसूचना संख्या 54-प्रेज/2009 में 'वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार' शब्द और अंक के स्थान पर हर जगह 'वीरता के लिए पुलिस पदक' शब्द रखे जाएं।

वरुण मित्रा  
संयुक्त सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जुलाई 2010

संकल्प

सं. ई-11013/3/2009-हिंदी--राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा.(क-2), दिनांक 15.3.1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/6/92-रा.भा.(क-2), दिनांक 10.6.1992 में निहित निदेशों के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन करती है :--

पुनर्गठन

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य :--

संसद सदस्य (लोक सभा)

- |    |                        |       |
|----|------------------------|-------|
| 1. | श्री संजय निरूपम       | सदस्य |
| 2. | सुश्री एम. विजया शांति | सदस्य |

संसद सदस्य (राज्य सभा)

- |    |                     |       |
|----|---------------------|-------|
| 3. | श्री मोहम्मद शफी    | सदस्य |
| 4. | श्री स्वपन साधन बोस | सदस्य |

संसद सदस्य (संसदीय राजभाषा समिति)

- |    |                           |       |
|----|---------------------------|-------|
| 5. | प्रो. अलका बलराम क्षत्रिय | सदस्य |
| 6. | श्री मोहम्मद अमीन         | सदस्य |

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद

एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली का प्रतिनिधि

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 7. | श्री चन्द्र प्रकाश मेहता,<br>डी-1/ए-13, टाइप-4, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003 | सदस्य |
|----|---|-------|

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र (दिल्ली नगर निगम)

10788-89, इंडेवाला रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 का प्रतिनिधि

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 3. | श्री विभूति मिश्र,<br>प्रधान मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 12, सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद-211003 | सदस्य |
|----|--|-------|

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 9. | डॉ. मुक्ति व्यास,<br>प्राचार्य, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, 12/8, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211001 | सदस्य |
|----|---|-------|

0.	श्री प्रशान्त मिश्रा, डी-35, सीमान्त विहार, कौशाम्बी, गाजियाबाद	सदस्य
1.	श्री निर्मल पाठक, 13, सीमान्त विहार, कौशाम्बी, गाजियाबाद	सदस्य
12.	श्री गिरिराज किशोर, 11/210, सूटरगंज, कानपुर-208001	सदस्य
	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य	
13.	श्री राजेश चोपड़ा, सी-15, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110015	सदस्य
14.	श्री भगत राम अग्रवाल, एफ.डी.-23, विशाखा एन्क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110088	सदस्य
15.	श्री अरूण सिंह डडवाल, 1-205/5, गीता आश्रम, सदर बाजार, दिल्ली छावनी-110010	सदस्य
	सरकारी सदस्य	
	राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)	
16.	सचिव	सदस्य
17.	संयुक्त सचिव	सदस्य
	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	
18.	सचिव	सदस्य
19.	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (रा.प्र. सर्वे. कार्यालय)	सदस्य
20.	महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय)	सदस्य
21.	अपर सचिव	सदस्य
22.	निदेशक (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता)	सदस्य
23.	अपर महानिदेशक (सी.ए.पी.)	सदस्य
24.	अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य-सचिव
26.	उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रकाशन)	सदस्य
27.	उप महानिदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)	सदस्य
28.	उप महानिदेशक (संगणक केन्द्र, नई दिल्ली)	सदस्य
29.	निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
30.	निदेशक (समन्वय एवं राजभाषा)	सदस्य
31.	उप निदेशक (राजभाषा)	सदस्य

## कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

## कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्वधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :--

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

(घ) समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

## मुख्यालय

4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

## यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा.(क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केंद्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पंकज जैन

अपर सचिव

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2010

सं. 11013/(1)/2009-हिन्दी--भारत सरकार ने अपने दिनांक 08.09.2005 के संकल्प सं. 11013/(1)/2000-हिन्दी के अधिक्रमण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे :--

(क) समिति का गठन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

## (1) गैर सरकारी सदस्य

## (क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

- |                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 1. श्री अंजन कुमार यादव, लोक सभा     | सदस्य |
| 2. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर, लोक सभा | सदस्य |
| 3. श्री नन्दी येलैया, राज्य सभा      | सदस्य |
| 4. श्री कलराज मिश्र, राज्य सभा       | सदस्य |

## (ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य

- |  |       |
|--|-------|
| 5. डॉ. (श्रीमती) बोच्चा झांसी लक्ष्मी, लोक सभा | सदस्य |
| 6. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, लोक सभा          | सदस्य |

## (ग) अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ इत्यादि का एक नामिति

- |  |       |
|--|-------|
| 7. डॉ. पद्माकर पांडे, 16-ए, अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली | सदस्य |
|--|-------|

## (घ) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् का प्रतिनिधि

- |  |       |
|--|-------|
| 8. श्री अमिताभ खरे, रेलवे ट्रांजिट हाऊस नं. 242-ए,<br>3, बसंत लेन, पचकुइयां रोड, नई दिल्ली | सदस्य |
|--|-------|

## (ङ) मंत्रालय द्वारा नामित राजभाषा के विद्वान पत्रकार आदि

- |  |       |
|--|-------|
| 9. श्री अनुराग चतुर्वेदी, 9, हिमालय, एन सी एच कालोनी, कंजूरामार्ग (प.)<br>मुंबई-400078   | सदस्य |
| 10. श्री राघवेन्द्र नाथ द्विवेदी, नगर संपादक, हमारा महानगर, प्रथम तल, उत्तर भारतीय<br>संघ शिक्षण शंकुल, टीचर्स कालोनी के पीछे, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051 | सदस्य |
| 11. श्री समर एम. खडस, 1/6, त्रिमूर्ति सोसाइटी, सायन-ट्राम्बे रोड,<br>चूनाभट्टी, मुंबई-400022   | सदस्य |
| 12. श्री निर्मल पाठक, 13, सीमांत विहार, कौशांबी, गाजियाबाद, उ.प्र.   | सदस्य |

## (च) राजभाषा विभाग द्वारा नामित

- |   |       |
|---|-------|
| 13. श्री दीपक कुमार पाठक, ए-13, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060  | सदस्य |
| 14. डॉ. ओंकार सिंह, 331, रामपुरा, दिल्ली-110035                       | सदस्य |
| 15. श्री अनिल तलवार, ए-139, सुदर्शन पार्क, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 | सदस्य |

## (2) सरकारी सदस्य

- |  |       |
|--|-------|
| 16. सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय                       | सदस्य |
| 17. सचिव, राजभाषा विभाग एवं हिंदी सलाहकार, भारत सरकार                | सदस्य |
| 18. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय | सदस्य |
| 19. अपर सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय                   | सदस्य |
| 20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग                                      | सदस्य |
| 21. संयुक्त सचिव (ई) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय            | सदस्य |

22. संयुक्त सचिव (आर) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य सचिव
23. संयुक्त सचिव (एम) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
24. अध्यक्ष, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पो. लि., देहरादून	सदस्य
25. अध्यक्ष, इंडियन ऑयल कार्पो. लि., नई दिल्ली	सदस्य
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि., मुंबई	सदस्य
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि., मुंबई	सदस्य
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओ.आई.एल., नई दिल्ली	सदस्य
30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ई आई एल, नई दिल्ली	सदस्य

टिप्पणी :--

उपरोक्त के अतिरिक्त पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के प्रमुख भी समिति के सदस्य होंगे जिन्हें नियमानुसार इस सूची में शामिल नहीं किया जा सका है और उन सभी संगठनों पर भी समिति के निर्णय लागू होंगे।

(ख) कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सलाह देना होगा।

(ग) कार्यकाल

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :--

1. समिति में नामित संसद सदस्य जैसे ही संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।
2. समिति के सरकारी सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उस पद को धारण किए हुए हैं जिसके कारण उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है।
3. अवधि के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा।

(घ) यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय आपन सं. II/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार नियत दर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, सामान्य राजस्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

लक्ष्मी नारायण गुप्ता  
संयुक्त सचिव



## खान मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2010

## संकल्प

सं. ई-12011/2/2009-हिंदी--खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भारत सरकार ने खान मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। इस समिति का गठन, कार्य इत्यादि निम्न प्रकार होंगे :--

## (I) गठन

1. खान मंत्री	अध्यक्ष
गैर सरकारी सदस्य	
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित	
2. श्री हरीश चौधरी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
3. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्रीमती रेणुबाला प्रधान, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
5. श्री आर. सी. सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	
6. श्री धर्मेन्द्र यादव, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
7. श्री रमेश बैस, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ द्वारा नामित	
8. श्रीमती बी. एस. शांताबाई	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् द्वारा नामित	
9. डॉ. परमानन्द पांचाल	सदस्य
खान मंत्रालय द्वारा नामित	
10. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानु	सदस्य
11. श्री कृष्ण कुमार प्रोवर	सदस्य
12. श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह	सदस्य
13. श्री जनक राज गुप्ता	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित	
14. श्री दीपक कुमार पाठक	सदस्य
15. श्री मुरली मणि	सदस्य
16. डॉ. मोहनन वी.टी.वी.	सदस्य
सरकारी सदस्य	
17. सचिव (खान)	सदस्य

18.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
19.	अपर सचिव (खान)	सदस्य
20.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
21.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, खान मंत्रालय	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय	सदस्य
23.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	सदस्य
24.	महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो	सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि.	सदस्य
28.	संयुक्त सचिव (हिंदी प्रभारी), खान मंत्रालय	सदस्य-सचिव

## (II) कार्य

इस समिति का कार्य, संविधान में राजभाषा के संबंध में निहित विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा इस बारे में जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में खान मंत्रालय तथा इसके संगठनों व उद्योगों को सलाह देना होगा।

## (III) कार्य-काल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से सामान्यतः तीन वर्ष का होगा बशर्ते कि :--

- (क) समिति में नामजद संसद सदस्य जैसे ही संसद सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे उन पदों पर आरूढ़ हैं जिन पर होने के कारण वे समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।

## (IV) सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में होगा, लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर यदि ऐसा हो, में भी कर सकती है।

## (V) यात्रा व अन्य भत्ते

(क) समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

(ख) समिति के अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजिता बाजपेयी पांडे  
संयुक्त सचिव

## इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2010

विषय : इस्पात उपभोक्ता परिषद् के गठन के संबंध में।

## संकल्प

सं. 5(3)/2009-डी-I (-) इस्पात मंत्रालय के दिनांक 25.2.2010, 15.4.2010, 17.5.2010, 26.5.2010 एवं 17.6.2010 के समसंख्यक संकल्पों के क्रम में इस मंत्रालय के दिनांक 25.2.2010 के संकल्प के पैरा 4(1) के अंतर्गत श्री बहे नायक सुपुत्र श्री बी. देस नायक, कनिकाला टांडा (viii), चौदासामुदराम पोस्ट, मुलाकादेचेरूवू मंडल, जिला चित्तौर, आंध्र प्रदेश के स्थान पर श्री थामिना नायडू, सुपुत्र श्री थामिना अपारो, निवासी 24-113-2/1, 100 फुट रोड, चिनगिनरटयडा, गजूवाका, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश को एतद्वारा इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद् के सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

उदय प्रताप सिंह  
संयुक्त सचिव

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जुलाई 2010

## संकल्प

सं. ई-11015/1/2009-हिन्दी--उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 17 मई, 2010 के समसंख्यक संशोधन संकल्प के साथ पठित दिनांक 14 जुलाई, 2008 के संकल्प संख्या ई-11015/1/2008-हिन्दी में "सरकारी सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत क्रम संख्या 35 में पंजीयक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता आयोग को शामिल किया जाता है और सदस्य-सचिव के रूप में संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को अब क्रम संख्या 36 पर रखा गया है।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

नवीन प्रकाश  
संयुक्त सचिव

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th July 2010

No. 101-Pres/2010—The Police Medal for Meritorious Service awarded to Shri R. K. Sharma, the then Deputy Inspector General of Police, Rohtak Range, Haryana vide this Secretariat Notification No. 2-Pres/96 dated 26.01.1996 published in Part-I, Section-I of the Gazette of India dated Saturday, the 10th February, 1996 is hereby cancelled and the medal is forfeited under Rule 8 of the Rules governing the award of Police Medal.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 102-Pres/2010—The name of IC-60492 Major Sukhdev Singh Nagiyal, Army Air Defence/34 Assam Rifles figuring at Sl. No. 11 stands deleted from the list of personnel awarded 'Sena Medal/Army Medal' for acts of exceptional courage published vide this Secretariat Notification No. 100-Pres/2008 dated 15 August, 2008 published in Part-I Section-I of the Gazette of India dated 8 November, 2008.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 103-Pres/2010—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 99-Pres/2008 dated 15 August, 2008 published in Part-I Section-I of the Gazette of India 8 November, 2008 relating to the award of "Bar to Sena Medal/Army Medal" for acts of exceptional courage :—

For :

The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to Captain Kuldeep Singh (IC-63517), Sena Medal, Dogra Regiment/62 Rashtriya Rifles for the acts of exceptional courage.

Read :

The President is pleased to approve the award of the "Bar to Sena Medal/Army Medal" to the undermentioned personnel for their acts of exceptional courage :—

- (a) Major Sukhdev Singh Nagiyal (IC-60492), Sena Medal/Army Air Defence/34 Assam Rifles.
- (b) Captain Kuldeep Singh (IC-63517), Sena Medal, Dogra Regiment/62 Rashtriya Rifles.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

No. 104-Pres/2010—In this Secretariat Notification No. 54-Pres/2009, dated the 12th June, 2009, the word and figure '1st Bar to Police Medal for Gallantry' is substituted with the words 'Police Medal for Gallantry' in all places.

BARUN MITRA  
Jt. Secy.

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110001, the 8th July 2010

## RESOLUTION

No. E-11013/3/2009-Hindi—In pursuance of the directives contained in the Department of Official Language O.M. No. II/20015/45/87-OL(A-2) dated 15.03.1988 and O.M. No. II/20015/6/92-OL(A-2) dated 10.06.1992, the Government of India hereby reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Statistics and Programme Implementation as under :—

## RECONSTITUTION

MINISTRY OF STATE FOR STATISTICS AND PROGRAMME  
IMPLEMENTATION (INDEPENDENT CHARGE)

Chairman

Non Official Members :

## Members of Parliament (Lok Sabha)

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| (1) Shri Sanjay Nirupam   | Member |
| (2) Ms. M. Vijaya Shanthi | Member |

## Members of Parliament (Rajya Sabha)

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| (3) Shri Mohammad Shafi     | Member |
| (4) Shri Swapan Sadhan Bose | Member |

## Members of Parliament (Committee of Parliament on Official Language)

- |                                |        |
|--------------------------------|--------|
| (5) Prof. Alka Balram Kshtriya | Member |
| (6) Shri Mohd. Amin            | Member |

Representative from Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68,  
Sarojini Nagar, New Delhi

- |  |        |
|--|--------|
| (7) Shri Chandra Prakash Mehta,<br>D-1/A-13, Type-IV, Lodhi Colony,<br>New Delhi-110003. | Member |
|--|--------|

Representative from Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, Community Centre  
(Municipal Corporation of Delhi)

10788-89, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110055

- |  |        |
|--|--------|
| (8) Shri Vibhuti Mishra,<br>General Secretary,<br>Hindi Sahitya Sammelan,<br>12, Sammelan Marg,<br>Allahabad-211003. | Member |
|--|--------|

Non-Official Members nominated by the Ministry of Statistics  
and Programme Implementation

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| (9)  | Dr. Mukti Vyas,<br>Principal, Allahabad Degree College,<br>12/8, Nyay Marg,<br>Allahabad-211001. | Member |
| (10) | Shri Prashant Mishra,<br>D-35, Seemant Vihar, Kaushambi,<br>Ghaziabad, U.P.                      | Member |
| (11) | Shri Nirmal Pathak,<br>13, Seemant Vihar, Kaushambi,<br>Ghaziabad, U.P.                          | Member |
| (12) | Shri Giriraj Kishore,<br>11/210 Souterganj,<br>Kanpur-208001.                                    | Member |

Non-Official Members nominated by the Ministry of Home Affairs  
(Department of Official Language)

- |      |  |        |
|------|--|--------|
| (13) | Shri Rajesh Chopra,<br>C-15, Mansarovar Garden,<br>New Delhi-110015.                   | Member |
| (14) | Shri Bhagat Ram Agrawal,<br>F.D.-23, Vishakha Enclave, Pitampura,<br>Delhi-110088.     | Member |
| (15) | Shri Arun Singh Dadwal,<br>1-205/5, Geeta Ashram, Sadar Bazar,<br>Delhi Cantt.-110010. | Member |

Official Members

Department of Official Language (Ministry of Home Affairs)

- |      |                 |        |
|------|-----------------|--------|
| (16) | Secretary       | Member |
| (17) | Joint Secretary | Member |

Ministry of Statistics and Programme Implementation

- |      |                                 |        |
|------|---------------------------------|--------|
| (18) | Secretary                       | Member |
| (19) | DG & CEO (NSSO)                 | Member |
| (20) | DG (Central Statistical Office) | Member |
| (21) | Additional Secretary            | Member |
| (22) | Director (ISI, Kolkata)         | Member |

(23) Additional Director General (CAP)	Member
(24) Additional Director General (Training)	Member
(25) Joint Secretary (Admn.)	Member Secretary
(26) Dy. Director General (CPD)	Member
(27) Dy. Director General (PI)	Member
(28) Dy. Director General (Computer Centre, New Delhi)	Member
(29) Director (Admn.)	Member
(30) Director (Coordination & OL)	Member
(31) Dy. Director (OL)	Member

### FUNCTIONS

2. The function of the Samiti will be to render advise in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the Constitution, OL Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language relating to Official Language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

### TENURE

3. The tenure of the Samiti will be normally three years from the date of its reconstitution subject to the following :—

- a member, who is Member of Parliament, will cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;
- ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti;
- a member nominated in a vacancy arising in the Samiti due to the death or resignation of any member shall hold office for the residual term.
- If a person is nominated as member in the middle of the term, he will hold office for the residual term of the Committee.

### HEADQUARTERS

4. The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

### TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

5. The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time and as per instructions contained in the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, Office Memorandum No. II/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987.

### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all State Governments, Union Territories Administrations, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime

Minister's Office, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and All Ministries/ Departments of Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PANKAJ JAIN  
Addl. Secy.

## MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 3rd July 2010

### RESOLUTION

No. 11013(1)/2009-Hindi—Government of India, in supersession of their Resolution No. 110013(1)/2000-Hindi, dated 08-09-2005, has decided to constitute a Hindi Advisory Committee for the Ministry of Petroleum & Natural Gas. The composition of the Committee, its functions etc., will be as under :—

#### (A) COMPOSITION OF THE COMMITTEE

Minister of Petroleum & Natural Gas

Chairman

Minister of State for Petroleum & Natural Gas

Vice Chairman

#### I. NON OFFICIAL MEMBERS

(a) Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs.

- |  |        |
|--|--------|
| 1. Sh. Anjan Kumar Yadav, Lok Sabha    | Member |
| 2. Sh. Surendra Singh Nagar, Lok Sabha | Member |
| 3. Sh. Nandi Yellaiah, Rajya Sabha     | Member |
| 4. Sh. Kalraj Mishra, Rajya Sabha      | Member |

(b) Members of Parliament nominated by Parliamentary Committee on Official Language.

- |   |        |
|---|--------|
| 5. Dr. (Smt.) Botcha Jhanshi Laxmi, Lok Sabha | Member |
| 6. Dr. Prasanna Kumar Patasani, Lok Sabha     | Member |

(c) One Nominee of All India Hindi Sanstha Sangh etc.

- |   |        |
|---|--------|
| 7. Dr. Padmakar Pandey, 16-A, Aruna Asaf Ali Road, New Delhi. | Member |
|---|--------|

(d) One representative of Kendriys Sachivalay Hindi Parishad

- |   |        |
|---|--------|
| 8. Sh. Amitabh Khare, Railway Transit House No. 242-A,<br>3 Basant Lane, Panchkuia Road, New Delhi. | Member |
|---|--------|



(e) Journalists etc. nominated by the Ministry.

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 9.  | Sh. Anurag Chaturvedi, 9, Himalay, NCH Colony, Kanjuramarg (W),<br>Mumbai-400078  | Member |
| 10. | Sh. Raghavendra Nath Dwivedi, City Editor, Hamara Mahanagar,<br>1st Floor, Uttar Bhartiya Sangh Shikshan Shankul, Behind Teacher's<br>Colony, Bandra (E), Mumbai-400051 | Member |
| 11. | Sh. Samar M. Khadas, 1/6, Trimurti Society, Sion-Trombay Raod,<br>Chunabhatti, Mumbai-400051  | Member |
| 12. | Sh. Nirmal Pathak, 13, Simant Vihar, Kaushambi, Ghaziabad, U.P.   | Member |

(f) Nominated by Department of Official Language

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| 13. | Sh. Deepak Kumar Pathak, A-13, New Rajendra Nagar, N. D-110060  | Member |
| 14. | Dr. Onkar Singh, 331, Rampura, Delhi-110035                     |        |
| 15. | Shri Anil Talwar, A-139, Sudarshan Park, Moti Nagar, N.D-110015 | Member |

## II. OFFICIAL MEMBERS

- |     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 16. | Secretary,<br>Petroleum & Natural Gas.  | Member              |
| 17. | Secretary,<br>Official Language & Hindi Advisor to Govt. of India.            | Member              |
| 18. | Additional Secretary & Financial Adviser,<br>M/o Petroleum & Natural Gas.     | Member              |
| 19. | Additional Secretary,<br>M/o Petroleum & Natural Gas.                         | Member              |
| 20. | Joint Secretary,<br>Department of Official Language.                          | Member              |
| 21. | Joint Secretary (E),<br>M/o Petroleum & Natural Gas.                          | Member              |
| 22. | Joint Secretary (R),<br>M/o Petroleum & Natural Gas.                          | Member<br>Secretary |
| 23. | Joint Secretary (M),<br>M/o Petroleum & Natural Gas.                          | Member              |
| 24. | Chairman<br>Oil & Natural Gas Corporation Limited, Dehradun                   | Member              |
| 25. | Chairman,<br>Indian Oil Corporation Limited, New Delhi                        | Member              |
| 26. | Chairman & Managing Director,<br>Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai | Member              |

27. Chairman & Managing Director, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai	Member
28. Chairman & Managing Director, Gail (India) Limited, New Delhi.	Member
29. Chairman & Managing Director, OIL, New Delhi	Member
30. Chairman & Managing Director, EIL, New Delhi	Member

Note:—

Apart from the above, all the heads of those organisations/Units under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas will also be the members of the Committee, which could not be included in the list as per rule and the decisions of the Committee will be implemented by them.

(b) Functions

The functions of the Committee will be to advise the Ministry of Petroleum & Natural Gas in matters relating to the progressive use of Hindi for Official work and allied issues falling within the frame-work of the Official Language policy laid down by the Government of India.

(c) Tenure

The term of the Committee will be three years from the date of its composition, provided that:—

- (1) A member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceases to be a member of Parliament.
- (2) Official members of the Committee shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Committee.
- (3) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.

(d) Travelling and other allowances

The non-official members of the Committee will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in Office memorandum No. II/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official language and at the fixed rates and as per rules amended by government of India from time to time.

ORDER

Order that a copy of the Resolution be communicated to all Members of the Committee, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Ministry of Parliamentary Affairs, comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, all Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information,

L.N. GUPTA  
Joint Secretary

## MINISTRY OF MINES

New Delhi, the 8th July 2010

## RESOLUTION

No. E-12011/2/2009-Hindi.—On the expiry of the tenure of Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Mines, Government of India have decided to re-constitute the Hindi Salahakar Samiti for the Ministry of Mines. The composition, function etc. of the Samiti will be as under:—

## (I) COMPOSITION

## 1. Minister of Mines

Chairman

## Non-Official Members

## Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

## 2. Shri Harish Choudhary, M.P. (Lok Sabha)

Member

## 3. Shri Bhola Singh, M.P. (Lok Sabha)

Member

## 4. Mrs. Renubala Pradhan, M.P. (Rajya Sabha)

Member

## 5. Shri R.C. Singh, M.P. (Rajya Sabha)

Member

## Nominated by Parliamentary Committee on Official Language

## 6. Sh. Dharmendra Yadav, M.P. (Rajya Sabha)

Member

## 7. Dr. Ramesh Baish, M.P. (Lok Sabha)

Member

## Nominated by Akhilbhartiya Hindi Sanstha Sangh

## 8. Sh. B.S. Shantabai

Member

## Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

## 9. Sh. Parmanand Panchal

Member

## Nominated by the Ministry of Mines

## 10. Shri Rajendra Parsad Kanu

Member

## 11. Shri Krishna Kumar Grover

Member

## 12. Shri Tilakdhari Prasad Singh

Member

## 13. Shri Janak Raj Gupta

Member

## Nominated by the Deptt. of OL

## 14. Shri Deepak Kumar Pathak

Member

## 15. Shri Murli Mani

Member

## 16. Dr. Mohanan V.T.V.

Member

## OFFICIAL MEMBERS

17. Secretary (Mines)	Member
18. Secretary, Deptt. of Official Language	Member
19. Additional Secretary (Mines)	Member
20. Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
21. Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Mines	Member
22. Joint Secretary, Ministry of Mines	Member
23. Director General, Geological Survey of India	Member
24. Controller General, Indian Bureau of Mines	Member
25. Chairman-cum-Managing Director, National Aluminium Company Ltd.	Member
26. Chairman-Cum-Managing Director, Hindustan Copper Ltd.	Member
27. Chairman-cum-Managing Director, Mineral Exploration Corp'n. Ltd.	Member
28. Joint Secretary (Incharge of Official Language) Ministry of Mines	Member -Secretary

## (II) FUNCTIONS

The functions of this Samiti will be to render advice to the Ministry of Mines and its organizations/undertakings in regard to the implementation of the various provisions relating to Official Language, contained in the Constitution, Official languages Act, Rules, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) in this regard.

## (III) TENURE

The term of the Samiti will be normally three years from the date of its re-constitution provided that:—

- (a) A Member of parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as soon as he ceased to be Member of Parliament.
- (b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are Members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises in the Samiti due to resignation or death etc. of any member, the member appointed in that capacity shall hold office for the remaining term of the committee.

## (IV) GENERAL

The Headquarters of the Samiti shall be in New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if so required.

**(V) TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES**

- (A) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Travelling Allowances and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of parliament (Salary, Allowance & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder.
- (b) Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language, O.M. No. II/22034/04/86-O.L(A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

**ORDER**

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and the Union Territory Administrations, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

**AJITA BAJPAI PANDE**  
Jt. Secy.

**MINISTRY OF STEEL**

New Delhi, the 07th July 2010

**RESOLUTION**

Subject Constitution of Steel Consumers' Council—regarding.

No. 5(3)/2009-D-I(.)—In continuation of Ministry of Steel Resolutions of even number dated 25.02.2010, 15.04.2010, 17.05.2010, 26.05.2010 and 17.06.2010, Shri thammina Naidu, S/o Shri Thammina Apparao, resident of 24-113-2/1, 100 Ft. Road, Chinagntyda, Gajuwaka, Vishakhapatnam, Andhra Pradesh is hereby nominated as Member to the Steel Consumers' Council of Ministry of Steel *vice* Shri Badde Naik, S/o Shri B. Dese Naik, Kanikala Tanda (Vill), Chowdasamudram Post, Mulakadecheruvu Mandal, Distt. Chittoor, Andhra Pradesh under Para. 4(i) of this Ministry's Resolution dated 25.02.2010 with immediate effect.

**ORDER**

Ordered that a copy of the above Resolutions be communicated to all the State governments, Union Territory Administrations, all the Ministries and the Departments of the Government of India including the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India and all the members of the Steel Consumers' Council.

Ordered also that it be published in the Gazette of India for general information.

**U.P. SINGH**  
Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION  
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 7th July 2010

RESOLUTION

No. E-11015/1/2009-Hindi—In partial modification of the Resolution Number E-11015/1/2008-Hindi dated 14th July, 2008 read with amendment resolution of even number dated 17.05.2010 regarding reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of Minsitry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution under the head “Official Members”, the name of Registrar, National Consumer Dispute Redressal Commission is added at serial number-35 and the name of Joint Secretary (Incharge of Hindi), Department of Food & Public Distribution as Member-Secretary is renumbered as 36.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Government, Union Territory Administrations, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President’s Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Controller of Accounts, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and all the Ministries and Departments of Government of India.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NAVEEN PRAKASH  
Jt Secy.